



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 18—मार्च 24, 2007, शनिवार/फाल्गुन 27, 1928—चैत्र 03, 1929  
No. 5] NEW DELHI, MARCH 18—MARCH 24, 2007, SATURDAY/PHALGUNA 27, 1928—CHAITRA 03, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2007

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. 76(ड) दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 'धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ज) के तहत' शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएं :-

(9) सुश्री अनीस जंग

.....सदस्य

[फा. सं. 10(19)/89/रक्षा (जी एस-VI)]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1983 के का.नि.आ. सं. 76(ड) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित का.नि.आ. द्वारा संशोधन किया गया था :-

1. 18-8-1986 का का.नि.आ. सं. 290
2. 06-4-1987 का का.नि.आ. सं. 154
3. 25-9-1987 का का.नि.आ. सं. 298
4. 28-5-1990 का का.नि.आ. सं. 110

5. 28-6-1990 का का.नि.आ. सं. 140
6. 30-9-1991 का का.नि.आ. सं. 224
7. 30-9-1991 का का.नि.आ. सं. 225
8. 22-6-1992 का का.नि.आ. सं. 183
9. 20-5-1993 का का.नि.आ. सं. 184
10. 21-8-1995 का का.नि.आ. सं. 188
11. 16-5-1996 का का.नि.आ. सं. 94
12. 11-12-1998 का का.नि.आ. सं. 172
13. 24-2-1999 का का.नि.आ. सं. 37
14. 16-8-2000 का का.नि.आ. सं. 183
15. 18-2-2003 का का.नि.आ. सं. 44
16. 17-10-2003 का का.नि.आ. सं. 157
17. 24-4-2006 का का.नि.आ. सं. 55
18. 30-6-2006 का का.नि.आ. सं. 90

#### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th February, 2007

**S.R.O. 14.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby appoints the following person as non-official member of the Central Advisory Committee with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Defence, SRO 76(E), dated the 10th October, 1983, namely :—

In the said Notification, under the heading “under clause (h) sub-section (1) of Section 12”, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

(9) Ms. Ancees Jung

..... Member

[F.No. 10(19)/89/D.(GS-VI)]

R. L. KAPOOR, Under Secy.

**Foot Note :** The Notification was published vide SRO No. 76(E), dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide :

1. S.R.O. No. 290 dt. 18-8-1986
2. S.R.O. No. 154 dt. 6-4-1987
3. S.R.O. No. 298 dt. 25-9-1987
4. S.R.O. No. 110 dt. 28-5-1990
5. S.R.O. No. 140 dt. 28-6-1990
6. S.R.O. No. 224 dt. 30-9-1991
7. S.R.O. No. 225 dt. 30-9-1991
8. S.R.O. No. 183 dt. 22-6-1992
9. S.R.O. No. 184 dt. 20-5-1993

10. S.R.O. No. 188 dt. 21-8-1995
11. S.R.O. No. 94 dt. 16-5-1996
12. S.R.O. No. 172 dt. 11-12-1998
13. S.R.O. No. 37 dt. 24-2-1999
14. S.R.O. No. 183 dt. 16-8-2000
15. S.R.O. No. 44 dt. 18-2-2003
16. S.R.O. No. 157 dt. 17-10-2003
17. S.R.O. No. 55 dt. 24-4-2006
18. S.R.O. No. 90 dt. 30-6-2006

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.नि.आ. 15.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य के अमृतसर जिले के पट्टी में गोलाबारूद भण्डार के निकटस्थ होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला अमृतसर, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

#### अनुसूची

पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में पट्टी में स्थित गोलाबारूद भण्डार नामक रक्षा संकर्म की बाहरी परिधि से 1000 गज (914.4 मीटर) की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[र.मं.मु.फा. का भाग मामला सं.-बी/50542/एडी पट्टी/एलडब्ल्यू(पश्चिम)/242/अ.स.(डी)/रक्षा(भूमि)]

वी. बी. दूबे, अवर सचिव

New Delhi, the 12th March, 2007

S.R.O. 15.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (b) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed, being land lying in the vicinity of Ammunition Dump, Patti, Distt. Amritsar, in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of Deputy Commissioner, Amritsar in the State of Punjab.

#### SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of 1000 yards (914.4 metres) from the outer periphery of the Works of Defence, namely, Ammunition Dump, Patti, Distt. Amritsar in the State of Punjab.

[Ministry of Defence No. PC to MF-B/50542/AD Patti/LW (West)/242/US(D)/D(Lands)]

V. B. DUBEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

का.नि.आ. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सेना सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, सेना सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 की अनुसूची में सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह श्रेणी 'II' से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“प्रोन्नति द्वारा”

[फा. सं. 15324/आरआर/एम पी 4 (सिव) (ए) 113/रक्षा-(नियुक्ति)/07]

वी. ए. चावडा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4 में का.नि.आ. 123 तारीख 13-19 नवम्बर, 2005 में प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 2nd March, 2007

**S.R.O. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Army Civilian Motor Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Civilian Motor Drivers Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Army Civilian Motor Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2005 against serial No. 3, relating to the post of Civilian Motor Driver Grade II, for the entries under column 11, the following entries shall be substituted, namely :—

“By promotion”.

[F. No. 15324/RR/MP 4 (Civ)(a)113/D(Appts.)/07]

V. A. CHAVDA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 vide number SRO 123 dated the 13th—19th November, 2005.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2007

**का.नि.आ. 17.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निम्नतर विरचनाओं में ऐसा सिविलियनों टेलीफोन पर्यवेक्षक, स्विच बोर्ड पर्यवेक्षक टेलीफोन ऑपरेटर तथा स्विच बोर्ड आपरेटर भर्ती नियम, 1977 को जहां तक उनका संबंध संकेत कोर के टेलीफोन ऑपरेटर काडर (साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा सम्मिलित रोस्टर से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व) किया गया है या करने से लोप किया गया है, संकेत कोर (साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा सम्मिलित रोस्टर) में सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटर के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संकेत कोर (साधारण कर्मचारिवृन्द शाखा सम्मिलित रोस्टर स्विच बोर्ड आपरेटर काडर) भर्ती नियम 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	------------------------	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. टेलीफोन पर्यवेक्षक/स्विच बोर्ड पर्यवेक्षक	69* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कोई परिवीक्षा नहीं	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
--	--	--

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति : ऐसा टेलीफोन ऑपरेटर श्रेणी-1 सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर श्रेणी-1 जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. कर्नल अभिलेख-(कर्नल या समतुल्य) -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी -सदस्य 3. लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य की पंक्ति का एक अधिकारी-सदस्य सचिव	लागू नहीं होता।

8/8 GI/07-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-1/सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटर श्रेणी-1	384* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	नहीं
(8)	(9)	(10)	(11)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कोई परीक्षा नहीं	प्रोन्नति द्वारा			
(12)	(13)	(14)				
प्रोन्नति : ऐसा टेलीफोन आपरेटर श्रेणी-II/सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटर श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. कर्नल अभिलेख-(कर्नल या समतुल्य) 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी 3. लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर या कैप्टन या समतुल्य की पंक्ति का एक अधिकारी	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य सचिव	लागू नहीं होता।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. टेलीफोन ऑपरेटर श्रेणी-II/सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर श्रेणी-II	901* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3200-85-4900 रुपए	चयन	18 से 25 वर्ष टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक :— (i) मैट्रिक या इसके समतुल्य (ii) प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज (पी.बी.) एक्स बोर्ड) को संभालने की दक्षता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
<b>वांछनीय :</b> बोल चाल की अंग्रेजी/हिन्दी में धाराप्रवाह			
(12)	(13)	(14)	
रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश पद पर कार्यरत व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति आमेलन और ऐसे व्यक्ति पर भी जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हताएं हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के अधिशेष टेलीफोन ऑपरेटर हैं : आमेलन या अन्तरण के लिए विचार किया जा सकेगा, यदि ऐसे कर्मचारी उपलब्ध हैं।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	
<b>टिप्पण :</b> —प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रति- नियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।			

[फा. सं. बी/44522/आर आर/सी एस बी ओ/सिग्स 4 (सी)/84/रक्षा (नि.)/07]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 5th March, 2007

**S.R.O. 17.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Civilians in Lower Formations (Telephone Supervisors, Switch Board Supervisor, Telephone Operators and Switch Board Operators) Recruitment Rules 1977, in so far as they relate to the Telephone Operator cadre of Corps of Signals (GS Branch Common Roster) except as respect things done or omitted to have done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Civilian Switch Board Operator Cadre in the Corps of Signals, (General Staff Branch Common Roster) namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Corps of Signals (General Staff Branch Common Roster Switch Board Operator Cadre) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons or posts in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Telephone Supervisor/ Switch Board Supervisor.	69* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Service Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministeiral	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	No
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	
(8)		(9)	(10)	(11)		
Not applicable		Not applicable	No probation	By promotion		
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)		(13)			(14)	
<b>Promotion:</b> Telephone Operator Grade I/ Civilian Switch Board Operator Grade I with 3 years of regular service in the grade.		<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee</b> 1. Colonel Records (Colonel or equivalent)—Chairman 2. Senior Administrative Officer or Establishment Officer—Member 3. An Officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent—Member Secretary.			Not applicable	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Telephone Operator/ Grade I/ Civilian Switch Board Operator Grade I.	384* (2007) *Subject to variation dependent on workload	Civilians in Defence Services Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministeiral Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Selection	Not applicable	No



(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	No porbation	By promotion

(12)	(13)	(14)
<b>Promotion:</b> Telephone Operator Grade II/ Civilian Switch Board Operator Grade II with 8 years of regular service in the Grade.	<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</b> 1. Colonel Records (Colonel or equivalent) —Chairman 2. Senior Administrative Officer or Establishment Officer —Member 3. An Officer of the rank of Lt. Colonel or Major or Captain or equivalent —Member Secretary	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Telephone Operator Grade II/ Civilian Switch Board Operator Grade II	901* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	Civilians in Defence Services Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3200-85- 4900/-	Selection	Between 18 to 25 years. <b>Note 1:</b> Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note 2:</b> The crucial date for determi- ning the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Maghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No

(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Essential:</b> (i) Matric or its equivalent. (ii) Proficiency of handling Private Board Exchange (PBX) Board. <b>Desirable:</b> Fluency in spoken English/Hindi.	Not applicable	Two years	By deputation or absorption failing which by direct recruitment.

31391/07-3

(12)	(13)	(14)
Deputation/absorption of person working in analogous post in lower formations of the Defence services and having the qualifications prescribed under column 8 including surplus Telephone Operators of other Central Govt. departments may also be considered for absorption or transfer in case such employees are available.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. B/44522/RR/CSBO/Sigs-4(c)/84/D(Apptts)/07]

V.A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2007

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर में फोरमैन और सहायक फोरमैन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियर कोर फोरमैन और सहायक फोरमैन भर्ती नियम 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होंगे.**—यह नियम उन्हीं पदों के लिए लागू होगा जो इस नियम में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो उक्त सूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोरमैन**	50* (2006)	साधारण केंद्रीय	7450-225-	चयन	लागू नहीं होता
**वर्तमान सहायक अभियंता फोरमैन के पद पर प्रोन्नति होने पर सहायक अभियंता (चयन ग्रेड) माने जाएंगे।	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय	11500 रुपए		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या आमेलन किया जाएगा

11	12
----	----

प्रोन्नति

**प्रोन्नति :**

सहायक फोरमैन या सहायक अभियंता जो रु. 6500-10500 के वेतनमान में हो तथा जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की हो।

**टिप्पण 1 :** अधिकारियों के प्रोन्नति की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में किए गए सेवा के वर्षों के आधार पर तैयार होगी।

**टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और इन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के लिए) : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

1. संकाय का डीन, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक —अध्यक्ष  
इंजीनियरिंग सैन्य कॉलेज के ब्रिगेडियर  
रैंक का अधिकारी
2. कर्नल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक —सदस्य  
इंजीनियरिंग
3. कर्नल या ले. कर्नल इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक —सदस्य  
इंजीनियरिंग
4. ले. कर्नल या मेजर इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक —सदस्य  
इंजीनियरिंग से अन्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक फोरमैन** **पद के विलय के पहले (20-09-2002) सहायक अभियंता का पद धारण करने वाले अधिकारी सहायक अभियंता ही माने जाएंगे।	248*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय।	6500-200- 10500 रुपए	चयन	नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं <b>टिप्पण 1 :</b> केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। <b>टिप्पणी : 2</b> आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख, होगी और न कि वह अंतिम तारीख, जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा उप मंडल, अंडमान और निकोबार दीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	<b>आवश्यक :</b> (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग में डिग्री। (2) किसी सरकारी संगठन या लोक- उपक्रम में इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार गजट या यांत्रिकी या स्वचालित या बंदूक या अभियंत्रण उपकरण के मरम्मत एवं रख-रखाव का दो वर्ष का पर्यवेक्षी अनुभव। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रत्येक भर्ती कार्यवाई के समय इंजीनियरिंग में डिग्री का नियत निर्धारित किया जाएगा। <b>टिप्पण 2 :</b> अच्छी योग्यता वालों की योग्यता में छूट संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर निर्भर है। <b>टिप्पण 3 :</b> अनुसूचित जाति या अनु- सूचित जनजाति के अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर निर्भर है। अगर भर्ती के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक 2 वर्ष

आयोग को यह लगता है कि इस समुदाय के अपेक्षित अनुभव प्राप्त आवेदक उनके लिए आरक्षित पद को भरने में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो

11

65% प्रोन्नति द्वारा  
20% सीधी भर्ती द्वारा  
15% भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनियुक्ति एवं पुनर्नियोजन द्वारा

12

**प्रोन्नति :**

चार्जमैन-1 (पार्ट-1 एवं पार्ट-2 काडर दोनों) जो रु. 5500-9000 के वेतनमान जिन्होंने इस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा 5 : 6 के अनुपात में की हो।

**टिप्पण 1 :** प्रोन्नत पद का 2% ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक जो रु. 5500-9000 के वेतनमान में हो तथा जिन्होंने इस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा से तब तक भरे जाएंगे जब तक वर्तमान पदधारी इस नियम की अधिसूचना तक खत्म हो जाएं।

**टिप्पण 2 :** चार्जमैन-1 (पार्ट-1 एवं पार्ट-2 दोनों) और ज्येष्ठ भंडार अधीक्षक अधिकारियों के प्रोन्नति की पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में किए गए सेवा के वर्षों के आधार पर तैयार होगी।

**टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और इन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

**प्रतिनियुक्ति एवं पुनर्नियोजन (सशस्त्र सैनिकों के लिए) :** सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिक, जो नायब सूबेदार (तकनीकी) या समतुल्य जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षण में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (8) में अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रदान की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् वे पुनर्नियोजन पर बने रहेंगे। (पुनर्नियोजन सिविल पदों की सेवानिवृत्ति के उग्र तक)

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के पुष्टिकरण के लिए)

- (1) संकाय का डीन, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरिंग सैन्य कॉलेज के ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी—
- (2) कर्नल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरिंग—
- (3) कर्नल या ले. कर्नल इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरिंग—
- (4) ले. कर्नल या मेजर इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक इंजीनियरिंग को छोड़कर—

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

—सदस्य

14

सीधी भर्ती एवं सशस्त्र सैनिकों की पुनर्नियोजन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

[मि. सं. 89229/फोरमैन और सहायक फोरमैन/ई एम ई सिव-1/भ.नि./87/रक्षा. नि./07]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

818 GI/07-4

New Delhi, the 14th March, 2007.

**S.R.O. 18.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Foreman and Assistant Foreman in the Corps of Electronics and Mechanical Engineers under Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers Foreman and Assistant Foreman Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personnel Law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6
1. Foreman**	50* (2006)	General Central Services Group	Rs. 7450-225-11500	Selection	No
**The existing Assistant Engineers on promotion to Foreman will be designated as Assistant Engineer (Selection Grade).	*Subject to variation Dependent on workload.	'B' Gazetted Non-Ministerial.			
Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any		
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and % of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

11

12

Promotion

**Promotion :**

(a) Assistant Foreman or Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with two years regular service in the grade.

**Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the requisite qualifying service by the Officers in their respective grade.

**Note 2 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotional Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :**

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1. Dean of Faculty, Military College of Electronics and Mechanical Engineering of the rank of Brigadier —Chairman
2. Colonel Records, Electronics and Mechanical Engineering —Member
3. Colonel or Lieutenant Colonel Electronics and Mechanical Engineering —Member
4. Lieutenant Colonel or Major other than the Corps of Electronics and Mechanical Engineering. —Member

1

2

3

4

5

6

1. Assistant Foreman\*\*  
\*\*The officers holding the designation of Assistant Engineer before merger of the post (As on 20-09-2002) shall continue to be designated as Assistant Engineers.

248\* (2006)  
\*Subject to variation  
Dependent on workload.

General Central Services Group  
'B' Gazetted,  
Non-Ministerial.

Rs. 6500-200-10500

Selection

No

818 GI/07-5

7	8	9	10
<p>Not exceeding 30 years</p> <p><b>Note 1 :</b> Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&amp;K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>	<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Degree in Engineering from a recognised university or equivalent.</p> <p>(ii) Two years supervisory experience in maintenance and repair of Electronics and Telecommunication Gadgets or Instrumentation or Automobile or Guns or Engineering Equipment's in a Government Organisation or Public Sector Undertakings.</p> <p><b>Note 1 :</b> The exact discipline of Degree in Engineering will be indicated at the time of each recruitment action.</p> <p><b>Note 2 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 3 :</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	No	<p>2 years for direct recruits and Amred Forces personnel re-employed</p>
11	12		
<p>65% by promotion, 20% by direct recruitment, 15% by deputation and re-employment of Ex-servicemen.</p>	<p><b>Promotion :</b></p> <p>Chargeman-I (both Part I and II cadre) in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade in the ratio of 5: 6.</p> <p><b>Note 1 :</b> 2% of the promotion posts shall be filled up from Senior Store Superintendents in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade till the existing strength of officers holding this post on the date of notification of these rules is exhausted.</p> <p><b>Note 2 :</b> The eligibility list of officers holding the post of Chargeman-I (Both part I and II cadre) and Senior Store Superintendents shall be prepared with reference to the completion of the requisite qualifying service by the officers in the relevant Grade or Post.</p> <p><b>Note 3 :</b> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation and Re-employment (for Armed Forces Personnel) :</b>— The Armed Forces Personnel holding the rank of Naib Subedar (Technical) or equivalent due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational</p>		



qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Col. 8. Such personnel shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms.

(Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) :**

1. Dean of Faculty, Military College of Electronics and Mechanical Engineering of the rank of Brigadier —Chairman
2. Colonel Records, Electronics and Mechanical Engineering —Member
3. Colonel or Lieutenant Colonel Electronics and Mechanical Engineering —Member
4. Lieutenant Colonel or Major other than the Corps of Electronics and Mechanical Engineering —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and for re-employment of Armed Forces personnel.

[F. No. 89229/Foreman & Asst. Foreman/EMECiv-1/RR/87/D (Appts)/07]

V.A. CHAVDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2007

**का.नि.आ. 19.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित भर्ती नियमों को विखंडित करते हैं, अर्थात् :—

- (i) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (ज्येष्ठ लेखाकार अधिकारी) भर्ती नियम, 1983, भारत के राजपत्र में 5 नवंबर, 1983 को का.नि.आ. 287 तारीख 4 अक्टूबर, 1983 को अधिसूचित किए गए थे;
- (ii) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (ट्रंक बोर्ड) भर्ती नियम, 1983, भारत के राजपत्र में 24 दिसंबर, 1983 को का.नि.आ. 314 तारीख 1 नवंबर, 1983 को अधिसूचित किए गए थे;
- (iii) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (लेखाकार) भर्ती नियम, 1985, भारत के राजपत्र में 8 जून, 1985 को का.नि.आ. 115 तारीख 7 मई, 1985 को अधिसूचित किए गए थे;
- (iv) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (सर्वेयर) भर्ती नियम, 1986, भारत के राजपत्र में 17 मई, 1986 को का.नि.आ. 180 तारीख 27 मार्च, 1986 द्वारा अधिसूचित किए गए थे;
- (v) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (समूह क पद) भर्ती नियम, 1988, भारत के राजपत्र में 25 जून, 1988 को संख्यांक का.नि.आ. 158 तारीख 31 मई, 1988 द्वारा अधिसूचित किए गए थे;
- (vi) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (भूमि) भर्ती नियम, 1991, भारत के राजपत्र में 30 नवंबर, 1991 को संख्यांक का.नि.आ. 250 तारीख 15 अक्टूबर, 1991 द्वारा अधिसूचित किए गए थे;
- (vii) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (सिस्टम डिजाइन) और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (स्थापन नियोजन) भर्ती नियम, 1991, भारत के राजपत्र में 7 दिसंबर, 1991 को संख्यांक का.नि.आ. 269 तारीख 15 अक्टूबर, 1991 द्वारा अधिसूचित किए गए थे; और
- (viii) रक्षा मंत्रालय, रेडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (सर्वेयर अधिकारी) भर्ती नियम, 1992, भारत के राजपत्र में 2 मई, 1992 को संख्यांक का.नि.आ. 84 तारीख 20 फरवरी, 1992 को अधिसूचित किए गए थे।

उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. ए/12305/मुप्रअ/आर-II]

एन. मारियप्पन, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 14th March, 2007

**S.R.O. 19.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President on being satisfied that it is necessary in the public interest hereby rescinds the following recruitment rules, so to do, namely :—

- (i) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 1983 notified in the Gazette of India on 5th November, 1983 vide number SRO 287 dated the 4th October, 1983;
- (ii) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office Senior Scientific Assistant (Trunk Boards) Recruitment Rules, 1983 notified in the Gazette of India on 24th December, 1983 vide number SRO 314, dated the 1st November, 1983;
- (iii) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Accountant) Recruitment Rules, 1985 notified in the Gazette of India on 8th June, 1985 vide number SRO 115 dated the 7th May, 1985;
- (iv) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Surveyor) Recruitment Rules, 1986 notified in the Gazette of India on 17th May, 1986 vide number SRO 180 dated the 27th March, 1986;
- (v) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1988 notified in the Gazette of India on 25th June, 1988 vide number SRO 158 dated the 31st May, 1988;
- (vi) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office Deputy Project Officer (Lands) Recruitment Rules, 1991 notified in the Gazette of India on 30th November, 1991 vide number SRO 250 dated the 15th October, 1991;
- (vii) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office Senior Scientific Assistant (System Design) and Senior Scientific Assistant (Installation Planning) Recruitment Rules, 1991 notified in the Gazette of India on 7th December, 1991 vide number SRO 269 dated the 15th October, 1991; and
- (viii) Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Surveyor Officer) Recruitment Rules, 1992 notified in the Gazette of India on 2nd May, 1992 vide number SRO 84 dated the 20th February, 1992.

except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. A/12305/CAO/R-II]

N. MARIAPPAN, Dy. Chief Administrative Officer